

QUASI JUDICIAL

http://164.164.27.240/Login.aspx

Waiting for 164.164.27.240

DEPARTMENT OF LABOUR
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

Welcome to LDMS

User Name

Password

Select Language

Select User Type

[Forgot your password?](#)

Copyright © 2013 All rights reserved.
Best Viewed with 1024 x 768 pixels This website is best viewed in [Internet Explorer Version 8 & Version 10](#) | [Mozilla Firefox 3.5 version](#)

This is the login screen by which the LDC can enter into the system. Already registered user can enter here own user name and password (User name and password should be correct).

ऊपर दिखाए गए स्क्रीन पर यूजर (एलडीसी/यूडीसी) को अपना username और password डाल कर लॉगिन करना है इसके बाद यूजर को वेलकम पेज शो होगा | जो की नीचे दिखाया गया है |

Welcome page will reveal after logging in by the user where we have the different menu items for different acts or modules at the left hand side of the screen.

The screenshot displays a web browser window with the following details:

- Browser Tabs:** Inbox (15,988) - meghav@i..., SquirrelMail 1.4.17, LDMS, डिक्शनरी - Hindi to En..., Google Translate.
- Address Bar:** https://ldms.rajasthan.gov.in/Admin_Module/Registration/ViewReg.aspx
- Page Header:** Government of Rajasthan, Department of Labour.
- Navigation Menu:** Home, Edit Profile, Change Password, As a Citizen.
- User Information:** Welcome, Alok Pareek (LDC/UDC), 10/10/2014 2:39:33 PM, LOGOUT.
- Left Sidebar Menu:** BoCW Cess/Project Details, BOCW Welfare Board, Claim Under Quasi Judicial, Complaint Application, Industrial Dispute, Inspection Note, Message, Registration / Amendment / Renewal, Reports, Return Filed Application, Standing Order Application.
- Main Content Area:** Registration, No Records Found.

In order to file a claim, LDC/UDC has to switch himself as a citizen. To switch to a citizen, click on the link marked in red. (shown below)

दावा फ़ाइल करने के लिए एलडीसी/यूडीसी को पहले "As a citizen" वाले लिंक पर क्लिक करना होगा

The screenshot shows a web browser window with the URL https://ldms.rajasthan.gov.in/Admin_Module/Registration/ViewReg.aspx. The page header features the Government of Rajasthan logo and the text "Government of Rajasthan" and "Department of Labour". Below the header, there is a navigation bar with links: Home, Edit Profile, Change Password, and "As a Citizen" (highlighted with a red box). The user is logged in as "Alok Pareek (LDC/UDC)" and the date/time is "10/10/2014 2:39:33 PM". The main content area shows "No Records Found" under the "Registration" section. A sidebar on the left contains various menu items: BoCW Cess/Project Details, BOCW Welfare Board, Claim Under Quasi Judicial, Complaint Application, Industrial Dispute, Inspection Note, Message, Registration / Amendment / Renewal, Reports, Return Filed Application, and Standing Order Application.

On clicking on the link “As a citizen”, the next screen that appears is:



In order to file a claim, click on “Claim Filing” link on the left menu.

दावा फ़ाइल करने के लिए “Claim Filing / दावा दायर” वाले लिंक पर क्लिक करें.

List of all the Acts under which one can file a claim appears.

लिंक पर क्लिक करने पर सारे अधिनियम की सूची आ जायेगी.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://ldms.rajasthan.gov.in/LDMS/RegistrationAmendment/ViewApplications.aspx>. The page header features the Government of Rajasthan logo and the text "Government of Rajasthan Department of Labour". The navigation bar includes links for "Home", "Edit Profile", "Change Password", and "As a Authority", along with a welcome message "Welcome, Alok Pareek (LDC/UDC)" and a "LOGOUT" button. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains a "Claim Filing" menu, which is highlighted with a red box. This menu lists the following acts:

- The Employee's Compensation Act
- The Equal Remuneration Act
- The Minimum Wages Act (Individual)
- The Payment of Gratuity Act(Employee)
- The Payment of Wages Act (Individual)
- The Minimum Wages Act, (Group)
- The Payment of Gratuity Act, (Nominee)
- The Payment of Gratuity Act, (Legal Heir)
- The Payment of Wages Act, (Group)
- The Shops and Commercial

Select the Act under which you want to file the claim; say you want to file claim under Employees Compensation Act, then click on The Employees Compensation Act.

उस अधिनियम के नाम का चुनाव करें जिसके तहत आपको दावा दायर करना है

On clicking on the Act, the form opens up as shown below.

THE EMPLOYEE COMPENSATION ACT, 1923/ कर्मकारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

Inbox (12,465) - meghav x LDMS Web Application x

localhost:81/LDMS/QuasiAndJudicialUI/EmployeesCompensation.aspx

सत्यमव जयत

Home Edit Profile Change Password As a Authority Sunil Sharma 2/24/2014 2:26:02 PM LOGOUT

Registration / Amendment / Renewal
Register Complaint
Claim Filing
Standing Order Application
Return Filing
BOCW Welfare Board
BOCW Welfare Cess Details

FORM F
See Rule 20
Application for Compensation by Employee under The Employee Compensation Act, 1923
(Fields marked in (*) are mandatory)

Basic Details

1. Name of Applicant

Address of Applicant

2. Plot No. / House No. / Name 3. Street / Locality / Mohalla
4. Village / Town / City 5. District -- Select District --

Details of Opponent / Employer

6. Name of Opponent/Employer

Address of Opponent / Employer

7. Plot No. / House No. / Name 8. Street / Locality / Mohalla
9. Village / Town / City 10. District -- Select District --

Applicant Details

11. Date of Injury to the Employee Applicant 12. Cause of Injury to the Employee Applicant
13. Type of injuries sustained by the Applicant --Select injuries sustained -- 14. Monthly wage of Applicant(In Rupees)

Details of the Claim

15. Claim Amount(In Rupees)

16. Attach copy of the claim No file chosen

Attach Supporting Documents (Max Size : 450KB)

17. Attach supporting documents No file chosen

2:26 PM

Inbox (12,465) - meghav x LDMS Web Application x

localhost:81/LDMS/QuasiAndJudicialUI/EmployeesCompensation.aspx

6. Name of Opponent/Employer

Address of Opponent / Employer

7. Plot No. / House No. / Name 8. Street / Locality / Mohalla

9. Village / Town / City 10. District

Applicant Details

11. Date of Injury to the Employee Applicant 12. Cause of Injury to the Employee Applicant

13. Type of injuries sustained by the Applicant 14. Monthly wage of Applicant(In Rupees)

Details of the Claim

15. Claim Amount(In Rupees)

16. Attach copy of the claim No file chosen

Attach Supporting Documents (Max Size : 450KB)

17. Attach supporting documents No file chosen

18. Attach another supporting documents No file chosen

Check the box for Clarification

<input type="checkbox"/> Claim filed within the prescribed time limit	<input type="checkbox"/> Delay condonation application attached
<input type="checkbox"/> Court fees attached	<input type="checkbox"/> Court fees exemption application attached
<input type="checkbox"/> Authority letter to file claim attached	<input type="checkbox"/> In case of Advocate, Vakalat Nama attached

Mark Application

19. Forward To

Copyright © 2013 All rights reserved.
Best Viewed with 1024 x 768 pixels. This website is best viewed in Internet Explorer Version 8 | Mozilla Firefox 3.5 version

2:26 PM

1. **Basic detail**

- a. **Name of Applicant:** - Name of applicant is name of that person who has applied for the compensation. Name of applicant is the mandatory field, without this field user save this form into the system. This field can only accept alphabets not numeric values. (For e.g. applicant is "Ramlal Meena")

आवेदक का नाम -इसमे यूजर आवेदक का नाम डालेगा जो दावा फाइल कर रहा है | इसमे केवल अक्षर डालने की अनुमति है |

2. **Address of Applicant**

- a. **Plot No. / House No. / Name:** - Here Plot no/ House No/ Name of House are the fields to enter the current address of Applicant. All are mandatory fields. (For eg. E-217/25, Malviya Nagar, Durga House. All can have alpha-numeric values).

घर का नंबर / प्लॉट संख्या / नाम- "घर का नंबर / प्लॉट संख्या / नाम" मे आवेदक अपने घर का नंबर/नाम डालेगा | उदाहरण : यदि आपका आवासीय पता "116A, सिविल लाइन्स, जयपुर" तब आप 116A डालेंगे |

- b. **Street/ Locality/ Mohalla:** - Street/ Locality/ Mohalla are the mandatory fields which is the part of the address of applicant. For eg. Shipra path/ Near Gyan Vihar Colony/ Malviya nagar.

स्ट्रीट / इलाका / मोहल्ला- इसमे अपनी आवेदक पते की दूसरी लाइन डालेगा | उदाहरण : यदि आपका आवेदक पता "116A, सिविल लाइन्स, जयपुर" तब आप सिविल लाइन्स डालेंगे |

- c. **Village/ Town/ City:** - This also a part of address of applicant where user needs to enter the village of applicant.

ग्राम / नगर / शहर- इसमे अपनी आवेदक पते की अन्तिम लाइन डालेगा | उदाहरण : यदि आपका आवेदक पता "116A, सिविल लाइन्स, जयपुर" तब आप जयपुर डालेंगे |

- d. **District:** - Here is the drop down list of all Districts of Rajasthan to select the relevant district of the applicant. Like: - Jaipur, Ajmer, Bundi etc.

जिला- इसमें आपको जिले का ड्रॉप डाउन दिखाया है अगर आप इस फील्ड पर क्लिक करते हैं, राजस्थान के सभी जिलों की सूची वर्णानुक्रम में आयगी। यूजर उपयुक्त जिले का चयन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिले के सामने वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना होगा।

3. **Detail of Opponent/ Employer**

a. Name of Opponent Employer: - This field reveals the name of opponent or employer who opposed applicant.

प्रतिद्वन्दी नियोक्ता का नाम- इसमें यूजर नियोक्ता का नाम डालेगा जिसके खिलाफ वो दावा फाइल कर रहा है। इसमें केवल अक्षर डालने की अनुमति है।

4. **Address of Opponent/ Employer**

a. **Plot No. / House No. / Name:** - Here Plot no/ House No/ Name of House are the fields to enter the current address of Opponent/ Employer. All are mandatory fields. (For eg. E-217/25, Malviya Nagar, Durga House. All can have alpha-numeric values).

घर का नंबर / प्लॉट संख्या / नाम- "घर का नंबर / प्लॉट संख्या / नाम" में नियोक्ता पता की पहली लाइन डालें। उदाहरण : यदि आपका आवासीय पता "303B, जवाहर नगर, जयपुर" तब आप 303B डालेंगे।

b. **Street/ Locality/ Mohalla:** - Street/ Locality/ Mohalla are the mandatory fields which is the part of the address of Opponent/ Employer. For eg. Shipra path/ Near Gyan Vihar Colony/ Malviya nagar.

स्ट्रीट / इलाका / मोहल्ला- इसमें अपनी नियोक्ता पते की दूसरी लाइन डालेगा। उदाहरण : यदि आपका आवेदक पता "303B, जवाहर नगर, जयपुर" तब आप जवाहर नगर डालेंगे।

c. **Village/ Town/ City:** - This also a part of address of applicant where user needs to enter the village of Opponent/ Employer.

ग्राम / नगर / शहर- इसमें अपनी नियोक्ता पते की अन्तिम लाइन डालेगा। उदाहरण : यदि आपका आवेदक पता "303B, जवाहर नगर, जयपुर" तब आप जयपुर डालेंगे।

d. **District:** - Here is the drop down list of all Districts of Rajasthan to select the relevant district of the Opponent/ Employer. Like: - Jaipur, Ajmer, Bundi etc.

जिला- इसमें आपको जिले का ड्रॉप डाउन दिखाया है अगर आप इस फील्ड पर क्लिक करते हैं, राजस्थान के सभी जिलों की सूची वर्णानुक्रम में आयगी | यूजर उपयुक्त जिले का चयन कर सकते हैं | इसके लिए उन्हें जिले के सामने वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना होगा |

5. **Applicant Detail**

- a. **Date of injury to the employee applicant:** - This field reveals the date of injury of applicant. It is mandatory field. Here is a calendar to select the date.

कर्मचारी आवेदक को चोट की तिथि: इस क्षेत्र में आवेदक किस दिन दुर्घटना ग्रसित हुआ, वो दिनांक दिए गए कैलेंडर से चुनना है

- b. **Cause of injury to the employee applicant:** - This field shows the reasons of injuries of applicant. For e.g. "I am injured by the Road Accident"

कर्मचारी आवेदक को चोट के कारण- इसमें यूजर कर्मचारी आवेदक की चोट का कारण बतायगा |

- c. **Injuries sustained by the applicant:-** In this field, user can select from the drop down list whether the injury was fatal or non-fatal.

आवेदक द्वारा घायल होने की वजह- : इसमें आवेदक ड्राप डाउन लिस्ट में से चुनेगा की दुर्घटना घातक था या गैर घातक |

- d. **Monthly wage of applicant:** - User needs to enter the monthly wage of the applicant. This will be entered only in numbers. This field is mandatory field. For e.g. "25000"

आवेदक की मासिक मजदूरी- इसमें यूजर आवेदक की मासिक मजदूरी बतायगा | और इसमें केवल अंक के डालने की अनुमति है |

6. **Detail of Claim**

- a. **Claim amount:** - Enter the claim amount. For e.g. 20000/-.

दावा राशि- इसमें यूजर अपना दावा राशि डालेगा और इसमें केवल अंक डालने की अनुमति है |

- b. **Attach copy of claim:** - There will be a file upload facility by which user can attach a copy of claim. User has to click on browse button and then select a file of claim.

दावे की प्रति संलग्न करें - इसमें यूजर दावे की प्रति संलग्न करेगा |

7. Attach Documents

- a. **Attach supporting documents:** - There will be a file upload facility by which user can attach some supporting documents which are related to this case. User has to click on browse button and then select a document to attach.

सहायक दस्तावेजों को संलग्न करें-इसमें यूजर सहायक दस्तावेजों को संलग्न करेगा |

- b. **Attach another supporting document:** - There will be a file upload facility by which user can attach some supporting documents which are related to this case. User has to click on browse button and then select a document to attach.

अन्य सहायक दस्तावेज संलग्न करें :इसमें यूजर अन्य दस्तावेज डाल सकता है जो की जरूरी नहीं है

8. Check the box for clarification

In this grid, the LDC/UDC needs to check whether there are any clarifications to be made in the form:

नीचे दिए गए चेक बॉक्स स्पष्टीकरण के लिए हैं. एलडीसी को यह सुनिश्चित करना है की सारे दस्तावेज एवं बाकी सारे नियमों का पालन ठीक से हुआ है या नहीं

- a. **Claim filed within the prescribed time limit:** - This box gets checked automatically if the claim is filed within the prescribed time limit; i.e., within 2 years from the date of injury. If the claim is not filed within 2 years from the date of injury, then this box does not get checked.

निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा दाखिल किया गया है या नहीं: दावा निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर की है तो यह बॉक्स स्वचालित रूप से जाँच हो जाता है, यानी, चोट की तिथि से 2 साल के भीतर. दावा चोट की तिथि से 2 साल के भीतर दायर नहीं होने पर, यह बॉक्स चेक नहीं होता है.

- b. **Delay condonation application attached:** - This field is linked with “**Claim filed within the prescribed time limit**”. If the “**Claim filed within the prescribed time limit**” box is checked, then there is no need to attach the delay condonation application. Therefore, the check-box will not be enabled.

विलंब माफ़ी आवेदन संलग्न: यह क्षेत्र "निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल दावा" के साथ जुड़ा हुआ है. बॉक्स "निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल दावा" जाँच की जाती है, तो फिर देरी माफ़ी आवेदन संलग्न करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए, चेक बॉक्स सक्षम नहीं किया जाएगा.

- c. **Court Fees Attached:** If the court fees is attached, then click on the check-box and if not attached, then leave the box un-checked.

कोर्ट फीस संलग्न: कोर्ट फीस संलग्न है, तो चेक बॉक्स पर क्लिक करें और संलग्न नहीं है, तो जाँच बॉक्स छोड़ दें.

- d. **Court Fees Exemption Application Attached:** - This field is linked to “**Court Fees Attached**”. If the “**Court Fees Attached**” box is checked, then there is no need to attach the court fees exemption application. Therefore, the check-box will not be enabled.

कोर्ट फीस छूट आवेदन संलग्न: - यह क्षेत्र "संलग्न कोर्ट फीस" से जुड़ा हुआ है. "संलग्न कोर्ट फीस" बॉक्स की जाँच की है, तो कोर्ट फीस में छूट आवेदन संलग्न करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए, चेक बॉक्स सक्षम नहीं किया जाएगा.

- e. **Authority Letter to file claim attached:** - If the authority letter to file the claim is attached, then click on the check-box and if not attached then leave the box un-checked.

दावा दायर करने का प्राधिकार पत्र संलग्न: - यदि प्राधिकार पत्र संलग्न है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करें नहीं तो इस चेक बॉक्स को छोड़ दे

1. **In Case of Advocate, Vakalat Nama attached:** - If the vakalat nama is attached, then click on the check-box and if not attached then leave the box un-checked.

अधिवक्ता के मामले में, वकालत नामा संलग्न: - वकालत नामा संलग्न है, तो चेक बॉक्स पर क्लिक करें और संलग्न नहीं है तो इस चेक बॉक्स को छोड़ दे

2. **Forward To:** LDC/UDC can forward the application to the relevant authority by selecting the name from the drop down box.

सारी कारवाही करने के बाद इस फॉर्म को सम्बंधित प्राधिकारी को भेजना है. ड्रॉप डाउन में से अधिकारी के नाम का चुनाव करें और “Submit” बटन पर क्लिक कर दें


3. **Submit button :** Here is a submit button at the end of the form to submit all the entered detail. After clicking on the submit button an acknowledgement form will get opened where the user can see the Important detail. For E.g. Applicant name, Application Number, Application Date etc. will reveal at the acknowledgement form. Here will be a facility to print the detail of applicant and the data will send to the applicant via SMS or Email. Now this detail will send to the authorized authority (Deputy Labour Commissioner, Joint Labour commissioner and Labour Commissioner). This detail will reveal on these entire commissioner’s dashboard.

4. **Reset Button :** On clicking on the Reset Button before clicking on “Submit”, all the information filled gets erased.

Filed Claim Acknowledgment / दावा दायर करने की रसीद

Inbox (15,987) - meghav@i... SquirrelMail 1.4.17 LDMS Web Application डिक्शनरी - Hindi to En... Google Translate

https://ldms.rajasthan.gov.in/LDMS/QuasiAndJudicialUI/QuasiandJudicialAcknowlagent.aspx Astromenda



Government of Rajasthan

Department of Labour

Home Edit Profile Change Password As a Authority Welcome, Alok Pareek (LDCJUDC) 10/10/2014 3:32:01 PM LOGOUT

- BOCW Welfare Board
- BOCW Welfare Cess Details
- Cause List
- Claim Filing
- Register Complaint
- Registration / Amendment / Renewal
- Return Filing
- Standing Order Application

THANK YOU FOR THE DETAILS

Application ID:	ECA/NF/16/14/785062
Date of filing claim:	10/10/2014
Name of Applicant:	Test
Name of Opponent / Employer:	Opponent

Print

To view application status, go to “Home” link to get the whole detail about the application ID. Here we can see following details:-

1. Application Number: - Application number is claim number which is generated by the system at the time of claim filing.
2. Act name: - Act name is defining itself that what is it? Act name is the name of act in which user have registered a case.
3. Application date: - Application date is defining the date on which the user has registered a case in relevant act.
4. Application status: - Application status reveal the position of the application after the registration.

किसी भी फॉर्म की वर्तमान स्थिति जानने के लिए “HOME” लिंक पर क्लिक करें:

1. एप्लीकेशन संख्या
2. अधिनियम का नाम
3. दावा दायर करने की तिथि
4. एप्लीकेशन की स्थिति



DEPARTMENT OF LABOUR

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Home Edit Profile Change Password As a Authority Sunil Sharma 2/24/2014 3:06:12 PM LOGOUT

Registration / Amendment / Renewal	Application No.	Date	Act Name	Service Type	Application Status
Register Complaint	492014206	24-01-2014	The Shops and Commercial Establishments Act, 1958	Amendment	Fresh
Claim Filing	MWIE/NF/16/2014/860597	11-02-2014	The Minimum Wages Act Ind, 1948	Claims	Pending at the level of Applicant
Standing Order Application	MWIE/NF/16/2014/732089	11-02-2014	The Minimum Wages Act Ind, 1948	Claims	Pending at the level of Applicant
Return Filing	MWIE/NF/16/2014/051372	13-02-2014	The Minimum Wages Act Ind, 1948	Claims	Pending at the level of Applicant
BOCW Welfare Board	MWIE/NF/16/2014/610952	13-02-2014	The Minimum Wages Act Ind, 1948	Claims	Recovery Notice Issued by Joint Labour Commissioner(M V)
BOCW Welfare Cess Details	MWII/2014/216538	14-02-2014	The Minimum Wages Act Ind, 1948	Claims	Pending at the level of Applicant
	MWGNF/16/2014/613209	11-02-2014	The Minimum Wages Act Grp, 1948	Claims	Pending at the level of Applicant
	MWGNF/8/2014/469850	11-02-2014	The Minimum Wages Act Grp, 1948	Claims	Pending at the level of Applicant
	MWGNF/16/2014/826105	11-02-2014	The Minimum Wages Act Grp, 1948	Claims	Pending at the level of Applicant
	POGN/2014/815430	11-02-2014	The Payment of Gratuity Act Emp, 1937	Claims	Pending at the level of Applicant
	POGE/2014/870546	11-02-2014	The Payment of Gratuity Act Emp, 1937	Claims	Pending at the level of Applicant
	POGE/2014/643258	11-02-2014	The Payment of Gratuity Act Emp, 1937	Claims	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
	POGE/2014/981367	11-02-2014	The Payment of Gratuity Act Emp, 1937	Claims	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
	POGE/2014/602439	11-02-2014	The Payment of Gratuity Act Emp, 1937	Claims	Pending at the level of Applicant
	POGE/2014/536207	11-02-2014	The Payment of Gratuity Act Emp, 1937	Claims	Pending at the level of Applicant
	POGE/2014/087296	11-02-2014	The Payment of Gratuity Act Emp, 1937	Claims	Pending at the level of Applicant

WORKFLOW OF QUASI JUDICIAL CASES / अर्ध न्यायिक मामलों के कार्यप्रवाह

FORM DIRECTED TO AUTHORITY

Once the LDC/UDC fills in the form and forwards it to the authority, the authority can view the form and take appropriate action on it.

एलडीसी/यूडीसी से फॉर्म अधिकारी के पास संचालित होता है. फॉर्म पर आगे कारवाही उसी अधिकारी को करना है. फॉर्म को देखने के लिए अधिकारी को पहले

एप्लीकेशन में लॉगिन करना है और मुख्य पृष्ठ पर दिए गए मेनू में से "अर्ध न्यायिक तहत दावे" लिंक का चुनाव करना है.

The screenshot shows a web browser window with the URL https://ldms.rajasthan.gov.in/Admin_Module/Registration/ViewReg.aspx. The page header features the Government of Rajasthan logo and the text "Government of Rajasthan Department of Labour". The user is logged in as "Vishnu Kumar Sharma (Joint Labour Commissioner)" on "10/10/2014 3:42:58 PM". The left-hand menu contains several options, with "Claim Under Quasi Judicial" highlighted by a red box. The main content area is titled "Registration" and displays "No Records Found".

On the left hand menu, click on “**Claim under Quasi Judicial**”. List of all the status opens up.

अर्ध न्यायिक तहत दावे" लिंक का चुनाव करने पर उप-मेनू की सूची आएगी.



Government of Rajasthan

Department of Labour

[Home](#) | [Edit Profile](#) | [Change Password](#)

Welcome, Vishnu Kumar Sharma (Joint Labour Commissioner)

10/10/2014 3:55:54 PM

[LOGOUT](#)

[BoCW Cess/Project Details](#)

[BOCW Welfare Board](#)

[Claim Under Quasi Judicial](#)

- Fresh Claim Application
- Pending for recovery with Authority
- Pending for recovery with recovering court
- Show Cause List
- Decided Cases

[Complaint Application](#)

[Industrial Dispute](#)

[Inspection Note](#)

[Message](#)

[Registration / Amendment / Renewal](#)

[Reports](#)

Registration

No Records Found


After navigating the Claim, a new window opens up where the cases are categorized like:-

1. **Fresh Claim Application:** - Fresh cases are those cases to which the hearing date has not been provided yet.
 2. **Pending for recovery with authority:** - Pending cases are those cases which have been sent to non-applicant for recovery.
 3. **Pending for recovery with recovering court:** - Pending **for recovery with recovering court** are the cases to which recovery order has been issued.
 4. **Show Cause List** - Show cause list are the list of cases to whom notice has been issued and is under the process of hearing.
 5. **Decided Cases:** - It reveals those cases for which a decision has been taken and closed.
1. **ताजा दावा आवेदन:** - वे मामले जिनको सुनवाई की तारीख अभी तक नहीं दी गई है
 2. **अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित:** - वे मामले जिनको वसूली के लिए गैर आवेदक को भेज दिया गया है
 3. **वसूली अदालत के पास वसूली के लिए लंबित:** - वे मामले जो वसूली अदालत के पास लंबित हैं
 4. **मामलों की सूची दिखाएँ** - कारण बताओ सूची नोटिस वे मामले हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है और सुनवाई की प्रक्रिया के तहत हैं.
 5. **निर्णय लिए मामले:** - वे मामले जिनके निर्णय हो चुके हैं और अब बंद हो चुके हैं

1. Fresh Claim Application / ताजा दावा आवेदन

When authority selects Fresh claim application option from the given list, the next page opens up.

जब भी अधिकारी ताजा दावा आवेदन पर क्लिक करते हैं, नीचे दिखाया गया पृष्ठ खुलता है



The screenshot shows the Government of Rajasthan Department of Labour website. The page displays a list of claims with the following columns: ApplicationID, ActName, Applicant Type, Name of applicant, and Name of opponent. The 'ApplicationID' column is highlighted with a red box. Below the table, there are 'Previous' and 'Next' buttons, and the page number is shown as 'Page : 1 of 1'.

ApplicationID	ActName	Applicant Type	Name of applicant	Name of opponent
ECA/NF/16/14/785062	The Employee's Compensation Act, 1923	N/a	Test	Opponent
ER/2014/694287	The Equal Remuneration Act, 1976	N/a	Test	o
ECA/NF/16/14/146539	The Employee's Compensation Act, 1923	N/a	Test	Opponentdfdfg

On another page of Fresh cases, the entire newly registered cases list appears on the screen with some important detail like: - the system generated application id, Act Name, Application Type, Name of Opponent. Here the application ID has a link to get detail about the particular case. Here also is the paging facility through which authority can see old cases too.

When authority clicks on any application ID, following page opens up where he/ she can see detail filled by the user earlier. Also further actions are appearing at the end of the page like: - Shortcomings, If any (If any other detail required related to this case) and Issue notice (Filled Detail is enough and need to send this case for further action and issue a notice).

दिखाए गए ग्रिड में "Application Number" हाइपरलिंक है. उस पर क्लिक करने से पूरा फॉर्म खुल जाता है. इसके अलावा आगे की कार्रवाई पृष्ठ के अंत में प्रदर्शित कर रहे हैं: - कमियाँ, यदि और अंक नोटिस (भरा विस्तार के लिए पर्याप्त है और आगे की कार्रवाई के लिए इस मामले को भेजने और एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता).

LDMS x M Inbox (12,465) - meghav x

localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/EmployeesCompensation.aspx?Actid=8&ApplicationId=98&Action=1

सत्यमेव जयते

Home Edit Profile Change Password Megha Verma 2/24/2014 4:27:05 PM LOGOUT

- Registration / Amendment / Renewal
- Inspection Note
- Complaint Application
- Claim Under Quasi Judicial
- Industrial Dispute
- Standing Order Application
- BoCW Cess/Project Details
- Beneficiary Application
- Return Filed Application
- Reports

Quasi and Judicial

Quasi and Judicial / The Employee's Compensation Act, 1923

Application ID: ECA/NF/2014/142850 under The Employee's Compensation Act, 1923

Basic Details

1. Name of Applicant khjkhk

Address of Applicant

2. Plot No. / House No. / Name hjkhj 3. Street / Locality / Mohalla khjk

4. Village / Town / City kjhkhj 5. District Jaipur

Details of Opponent / Employer

6. Name of Opponent / Employer khjkh

Address of Opponent / Employer

7. Plot No. / House No. / Name khjkh 8. Street / Locality / Mohalla khjk

9. Village / Town / City kjhk 10. District Jaipur

Employee Service Details

11. Date of injury to the employee applicant 05/02/2014 12. Cause of injury to the employee applicant yyy

13. Injuries sustained by the Applicant ijkkj 14. Monthly wage of Applicant 888.00

Details of the Claim

15. Claim Amount 7777.00

Attached Documents

4:28 PM

LDMS x Inbox (12,465) - meghav@ x

localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/EmployeesCompensation.aspx?Actid=8&ApplicationId=98&Action=1

13. Injuries sustained by the Applicant 14. Monthly wage of Applicant

Details of the Claim

15. Claim Amount

Attached Documents

16. View Supporting Documents [View Supporting Document](#)

18. Attach another supporting documents [View Another Supporting Document](#)

19. Copy of the claim [View Claim Copy](#)

Check the box for Clarification

Claim filed within the prescribed time limit Delay condonation application attached

Court fees attached Court fees exemption application attached

Authority letter to file claim attached In case of Advocate, Vakalat Nama attached

Action Taken

[Back](#) [Clarifications](#) [Admit and Issue Notice](#)

Audit Trail

User Name	Action	Detail	Date & Time
Sunil Sharma(LDC/UDC)	Claim has been filled		2014-02-11 01:20:01 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Shortcomings has been sent	Claim filed within the prescribed time limit,Delay condonation application attached,Court fees attached,Authority letter to file claim attached	2014-02-12 05:47:15 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Shortcomings has been sent	Claim filed within the prescribed time limit,Delay condonation application attached,Court fees attached,Authority letter to file claim attached	2014-02-12 05:57:34 (0 day)

Copyright © 2013 All rights reserved.
 Best Viewed with 1024 x 768 pixels This website is best viewed in Internet Explorer Version 8| Mozilla Firefox 3.5 version

4:29 PM

A. Shortcomings :-

If the authority feels that there are more/less shortcomings than what has been marked by the LDC/UDC in the "Clarification Grid", the authority can check/un-check the clarification box accordingly. After checking/un-checking the clarification box, click on "CLARIFICATION".

यदि अधिकारी को लगता है की "स्पष्टीकरण गिड" में चिह्नित की गई कमियाँ अधिक / कम है, तो अधिकारी अपने हिसाब से स्पष्टीकरण बॉक्स की जांच / चेक कर सकते हैं. स्पष्टीकरण बॉक्स के जाँच / जाँच के बाद, "स्पष्टीकरण" पर क्लिक करें.

The screenshot shows a web browser window with the URL: localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/ShortcomingsAcknowlagement.aspx?msg=Court%20fees%20exemption%20application,Authority%20letter%20to%20%. The page header includes the Department of Labour logo and the text "DEPARTMENT OF LABOUR GOVERNMENT OF RAJASTHAN". Below the header, there is a navigation menu with options like Home, Edit Profile, and Change Password. The user's name "Megha Verma" and the date "2/24/2014 4:33:48 PM" are displayed. The main content area shows a message "DEAR ADMIN" and a table with the following details:

Application ID:	ECA/NF/2014/142850
Name of Applicant	khjkhk
Name of Opponent	khjkh
Action Taken:	Shortcomings found
Description of shortcomings:	Court fees exemption application, Authority letter to file claim, Vakalat Nama

Below the table, there is a "Print" button.

An acknowledgment gets generated after the authority clicks on "Clarification" (as shown in the image above).

पर क्लिक करने के बाद स्पष्टीकरण की रसीद उत्पन्न होगी (जैसा की ऊपर दिखाया गया है)

B. Issue Notice:-

If authority is satisfied with all the filled details and want to issue a notice to the user then he/ she will click on "Admit and Issue Notice".

यदि अधिकारी सभी भरा विवरण के साथ संतुष्ट है और उपयोगकर्ता को एक नोटिस जारी करना चाहते हैं तो वह " Admit and Issue Notice " पर क्लिक करेंगे.

The screenshot displays a web browser window with the URL `localhost:81/LDMS/QuasiAndJudicialUI/IssueNoticeEmployeeCompensationAct.aspx?Id=110&Action=8`. The page header includes the text "सत्यमेव जयते" and navigation links: Home, Edit Profile, Change Password, Megha Verma, 24/02/2014 16:41:05, and LOGOUT. A sidebar on the left contains a list of menu items: Registration / Amendment / Renewal, Inspection Note, Complaint Application, Claim Under Quasi Judicial, Industrial Dispute, Standing Order Application, BoCW Cess/Project Details, Beneficiary Application, Return Filed Application, and Reports. The main content area is titled "Quasi Judicial / Issue Notice Under The Employee's Compensation Act, 1923" and contains the following text:

FORM J
See Rule 39
Notice Under The Employee's Compensation Act, 1923

To
kjjk
khj,kjh,khjk

Where as a claim for compensation has been made by pks , against kjjk and the said pks has claimed that kjjk is liable under Section 12 (2) of the Workmen's Compensation Act to indemnify him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim, and whereas the said on notice served has claimed that you stand to him in the relation to a contractor from whom the applicant pks pks could have reversed compensation . You are hereby informed that you may appear before me on [] and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claim for indemnify made by the opposite party pks In [] and your liability to indemnify the opposite party [] to admit the validity of any award made against the opposite party pks on him

Date 24/02/2014

Signature of the authority

SUBMIT

Copyright © 2013 All rights reserved.
Best Viewed with 1024 x 768 pixels This website is best viewed in Internet Explorer Version 8| Mozilla Firefox 3.5 version

The above shown notice appears. Select the date when you want to call the parties for hearing and click on SUBMIT.

After clicking on Submit, the below shown form appears with the selected date in it

ऊपर दिखाया गया नोटिस प्रकट होता है. कैलेंडर में से उस दिनांक का चुनाव करें जिस दिन आप दोनों पक्षों को सुनना चाहते हैं.

Submit पर क्लिक करने के बाद, नीचे दिखाया गया फॉर्म उत्पन्न होता है

The screenshot displays a web browser window with the URL `localhost:81/LDMS/QuasiAndJudicialUI/IssueNoticeEmployeeCompensationAct.aspx?Id=110&Action=8`. The page header includes the text "सत्यमेव जयते" and navigation links: Home, Edit Profile, Change Password, Megha Verma, 24/02/2014 16:41:43, and LOGOUT. A left sidebar contains a menu with items like "Registration / Amendment / Renewal", "Inspection Note", "Complaint Application", "Claim Under Quasi Judicial", "Industrial Dispute", "Standing Order Application", "BoCW Cess/Project Details", "Beneficiary Application", "Return Filed Application", and "Reports". The main content area shows a form titled "FORM J" and "See Rule 39" under the heading "Notice Under The Employee's Compensation Act, 1923". The "To" field is populated with "kjjk" and "khj,kjh,khjk". The body text reads: "Where as a claim for compensation has been made by pks , against kjkk and the said pks has claimed that kjkk is liable under Section 12 (2) of the Workmen's Compensation Act,to indemnify him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim,and whereas the said on notice served has claimed that you stand to him in the relation to a contractor from whom the applicant pks pks could have reversed compensation . You are hereby informed that you may appear before me on 28/02/2014 and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claim for indemnify made by the opposite party pks In default of your appearance you will be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party pks and your liability to indemnify the opposite party pks for any compensation recovered from him". Below the text, the "Date" is 24/02/2014 and the "Signature of the authority" field is empty. A "PRINT" button is positioned at the bottom center of the form. The footer contains copyright information: "Copyright © 2013 All rights reserved. Best Viewed with 1024 x 768 pixels This website is best viewed in Internet Explorer Version 8| Mozilla Firefox 3.5 version".

“Print” option also appears at the bottom of the form. If the authority wants to take a print of the notice and send it to the parties, then he can do so.

प्रिंट का विकल्प है फॉर्म के अंत में. यदि अधिकारी चाहें तो नोटिस का प्रिंट ले कर दोनों पक्षों को भेज सकते हैं.

Once notice is issued, the application moves to “**SHOW CAUSE LIST**”. To view the case, go to “**SHOW CAUSE LIST**” and click on it. The below shown screen appears:

नोटिस जारी करने के बाद, वो केस/मामला "Show Cause List" में चला जाता है

The screenshot displays a web browser window with the URL <https://ldms.rajasthan.gov.in/LDMS/QuasiAndJudicialUI/IssueNoticeEmployeeCompensationAct.aspx?Id=2&Action=8>. The page header features the Government of Rajasthan logo and the text "Government of Rajasthan Department of Labour". The user is logged in as "Vishnu Kumar Sharma (Joint Labour Commissioner)" on "10/10/2014 3:59:34 PM".

The left sidebar contains a menu with the following items:

- BoCW Cess/Project Details
- BOCW Welfare Board
- Claim Under Quasi Judicial
 - Fresh Claim Application
 - Pending for recovery with Authority
 - Pending for recovery with recovering court
 - Show Cause List** (highlighted with a red box)
 - Decided Cases
- Complaint Application
- Industrial Dispute
- Inspection Note
- Message
- Registration / Amendment / Renewal
- Reports

The main content area is titled "Quasi Judicial / Issue Notice Under The Employee's Compensation Act, 1923" and displays "FORM J See Rule 39 Notice Under The Employee's Compensation Act, 1923".

The notice text reads:

To
Opponent
nmnNmnm,nm,nmn
जयपुर

Where as a claim for compensation has been made by **Test** , against **Opponent** and the said **Test** has claimed that **Opponent** is liable under Section 12 (2) of the Workmen's Compensation Act,to indemnify him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim,and whereas the said on notice served has claimed that you stand to him in the relation to a contractor from whom the applicant **Test Test** could have reversed compensation . You are hereby informed that you may appear before me on **17/10/2014** and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claim for indemnify made by the opposite party **Test** In default of your appearance you will be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party **Test** and your liability to indemnify the opposite party **Test** for any compensation recovered from him

Date: 10/10/2014

Signature of the authority

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/ShowCause.aspx`. The page header includes the Department of Labour logo and the text "DEPARTMENT OF LABOUR GOVERNMENT OF RAJASTHAN". Below the header, there is a navigation menu with options like "Home", "Edit Profile", and "Change Password". The user's name "Megha Verma" and the date "2/24/2014 4:47:40 PM" are displayed. A sidebar on the left contains a list of menu items, including "Registration / Amendment / Renewal", "Inspection Note", "Complaint Application", "Claim Under Quasi Judicial", "Industrial Dispute", "Standing Order Application", "BoCW Cess/Project Details", "Beneficiary Application", "Return Filed Application", and "Reports". The main content area features a "Show cause list for" label above a calendar for February 2014. The calendar shows the days of the week (Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa) and the dates from 1 to 28. A "Show" button is positioned below the calendar. The footer contains copyright information and browser recommendations.

From the calendar, select the date for which you want to view that how many cases are lined up and what are their status.

So, select the date from the calendar and click on "SHOW".

यदि आप यह देखना चाहते हैं की किसी तारीख को कितने मामले सुनवाई के लिए हैं, दिए गए कैलेंडर में से तारीख का चुनाव करें और "Show" पर क्लिक करें

LDMS x Gmail x

localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/ShowCause.aspx

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
सत्यमेव जयते

Home Edit Profile Change Password Megha Verma 2/24/2014 4:47:40 PM LOGOUT

Registration / Amendment / Renewal
Inspection Note
Complaint Application
Claim Under Quasi Judicial
Industrial Dispute
Standing Order Application
BoCW Cess/Project Details
Beneficiary Application
Return Filed Application
Reports

Show cause list for 28/02/2014

Show

Case ID	Name of applicant	Name of opponent	Status	Next Hearing Date	Action
ECA/F/2014/439018	pks	kjkk	For Service of Notice		Update

Previous Page : 1 of 1 Next

4:49 PM

All the cases listed on that day shall appear, as shown above.

उस दिन के सभी मामले सूचीबद्ध रूप पे प्रस्तुत कर दिए जायेंगे.

The screenshot displays the LDMs web application interface for the Government of Rajasthan. The page title is "GOVERNMENT OF RAJASTHAN" with the motto "सत्यमेव जयते". The user is logged in as "Megha Verma" on "2/24/2014 4:47:40 PM". The main content area shows a search box for "Show cause list for" with the date "28/02/2014" and a "Show" button. Below this is a table with columns: Case ID, Name of applicant, Name of opponent, Status, Next Hearing Date, and Action. A dropdown menu is open for the "Status" column of the first row, showing options like "For Service of Notice", "For Notice Served", "For Reply", "For Documents", "For Framing of Issues", "For Evidence of Claimant", "For Argument", "For Order", "Decision-Accept", and "Decision-Dismiss". The "Update" button is visible in the "Action" column.

Case ID	Name of applicant	Name of opponent	Status	Next Hearing Date	Action
ECA/F/2014/439018	pks	kjkk	For Service of Notice		Update

The status for the case to which the notice has been issued, appears to be “**For Service of Status**”. This appears as the default status.

After this, the authority can update the status and also issue a new hearing date if required. After updating the status and issuing a new hearing date, click on “**UPDATE**”.

This case shall next appear on the “**next hearing date**” issued.

जिन मामलो को नोटिस जारी कर दी गई है, वे " **For Service of Status** " में दिखेंगे. यह डिफॉल्ट स्थिति के रूप में प्रकट होता है. इसके बाद प्राधिकरण स्थिति अद्यतन कर सकते हैं और यदि आवश्यकता हो तो एक नई सुनवाई की तारीख जारी भी कर सकते हैं.

This process shall continue till "**For Order**".

यह प्रक्रिया "For Order" तक जारी रहेगा.

When the authority either Accepts or Dismisses the case, he gets directed to the page where he needs to enter the details
जब अधिकारी मामला स्वीकार या खारिज करता है, तब उसे विवरण दर्ज करने वाले पृष्ठ पर भेज दिया जाता है.

WHEN AUTHORITY ACCEPTS A CLAIM/ जब प्राधिकरण दावे स्वीकार करता है

Home | Edit Profile | Change Password | Megha Verma | 2/24/2014 4:47:40 PM | LOGOUT

Registration / Amendment / Renewal
Inspection Note
Complaint Application
Claim Under Quasi Judicial
Industrial Dispute
Standing Order Application
BoCW Cess/Project Details
Beneficiary Application
Return Filed Application
Reports

Show cause list for

Show

Case ID	Name of applicant	Name of opponent	Status	Next Hearing Date	Action
ECA/F/2014/439018	pks	kjkk	For Service of Notice Select status For Service of Notice For Notice Served For Reply For Documents For Framing of Issues For Evidence of Claimant For Argument For Order Decision-Accept Decision-Discard		Update

Previous Page

Select "**Decision - Accept**" from the drop down box and click on **Update**.

ड्रॉप डाउन बॉक्स से "**Decision - Accept**" का चुनाव करें और "**Update**" पर क्लिक करें

11. Date of injury to the employee applicant: 12/02/2014

12. Cause of injury to the employee applicant: kkk

13. Injuries sustained by the Applicant: Fatal

14. Monthly wage of Applicant: 8678.00

Details of the Claim

15. Claim Amount: 878.00

Attached Documents

16. View Supporting Documents: [View Supporting Document](#)

18. Attach another supporting documents: [View Another Supporting Document](#)

19. Copy of the claim: [View Claim Copy](#)

Action Taken

20. Decision of the Authority: Accept Dismiss

i. Claim Amount:

ii. Penalty:

iii. Interest:

25. Issue Directions: Yes

[Back](#) [Submit](#)

Audit Trail

User Name	Action	Detail	Date & Time
Sunil Sharma(LDC/UDC)	Claim has been filled		2014-02-12 23:55:32 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Notice has been issued	Hearing date-28/02/2014	2014-02-24 16:41:44 (0 day)
shyoraj singh(Labour Commissioner)	Application is Accepted	Accepted date-24/02/2014	2014-02-24 17:55:14 (0 day)

Authority gets directed to this page, where at the bottom of the page he needs to enter the case details and issue Directions to the non-claimant to pay the claim amount.

Enter the claim details and click on the radio button beside **“Issue Directions”**. After this click on **“SUBMIT”**

अधिकारी को उस पृष्ठ पर निर्धारित कर दिया जाता है, जहाँ उसे गैर दावेदार को दावा राशि का भुगतान करने के लिए आदेश देने हैं

LDMS x Gmail x

localhost:81/Admin_Module/Recovery/QuasiAndJudicial/RecoveryNotice.aspx?Action=5&Id=110&Act_id=8%20&AppId=ECA/F/2014/439018

सत्यमेव जयते

Home | Edit Profile | Change Password | Megha Verma | 24/02/2014 17:59:33 | LOGOUT

Registration / Amendment / Renewal

Inspection Note

Complaint Application

Claim Under Quasi Judicial

Industrial Dispute

Standing Order Application

BoCW Cess/Project Details

Beneficiary Application

Return Filed Application

Reports

Recovery

Quasi And Judicial / Recovery Notice

न्यायालय आयुक्त **The Employee's Compensation Act, 1923**

Court Address

क्रमांक ECAF/2014/439018 जयपुर दिनांक: 24/02/2014

jkh
khj,kjh,
khjk

विषय :- pks v/s kjkk

महोदय,

उपरोक्त उन्मानी परकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24/02/2014 को निर्णय पारित किया जाकर अपाधी संख्या एक को आदेश दिये गये थे कि वह पाधी को भुगतान हेतु मुआवजा राशि रुपये 12000 दिनांक 24/02/2014 से एक माह पश्चात इस न्यायालय में जमा कराये जाने वाले दिवस तक की अवधि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आदेश की तिथि से 30 दिवस में इस न्यायालय में जमा करावे। जिसके संबंध में आपको इस न्यायालय के पत्र दिनांक 24/02/2014 के द्वारा सूचित किया गया था किंतु निश्चित अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी आपने मुआवजा राशि जमा नहीं कराई है।

अतः The Employee's Compensation Act, 1923 की धारा धारा के तहत आपको पुनः आदेश दिये जाते हैं कि आप उक्त पतिकर राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आयुक्त The Employee's Compensation Act, 1923 Enter Address के नाम से बैंकस चैक बनाकर सात दिवस की अवधि में इस न्यायालय में जमा करावे अन्यथा आप के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

आदेश आज दिनांक 24/02/2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

6:03 PM

Fill in the required fields and click on Submit.

आवश्यक फ़ील्ड भरें और सबमिट करें पर क्लिक करें.

The filled form appears:

भरा हुआ फार्म प्रकट होता है:

LDMS x Gmail x

localhost:81/Admin_Module/Recovery/QuasiAndJudicial/RecoveryNotice.aspx?Action=5&Id=110&Act_id=8+&AppId=ECA%2f%2f2014%2f439018

DSFSDF

क्रमांक ECA/F/2014/439018 जयपुर दिनांक: 24/02/2014

jkh
khj,kjh,
khjk

विषय :- pks w/s kjkk

महोदय,

उपरोक्त उनमानी परकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24/02/2014 को निर्णय पारित किया जाकर अपाथी संख्या एक को आदेश दिये गये थे कि वह पाथी को भुगतान हेतु मुआवजा राशि रुपये 12000 दिनांक 24/02/2014 से एक माह पश्चात इस न्यायालय में जमा कराये जाने वाले दिवस तक की अवधि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आदेश की तिथि से 30 दिवस में इस न्यायालय में जमा करावे। जिसके संबंध में आपको इस न्यायालय के पत्र दिनांक 24/02/2014 के द्वारा सूचित किया गया था किंतु निश्चित अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी आपने मुआवजा राशि जमा नहीं कराई है।

अतः The Employee's Compensation Act, 1923 की धारा AD के तहत आपको पुनः आदेश दिये जाते हैं कि आप उक्त पत्रिकर राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आयुक्त The Employee's Compensation Act, 1923 SD के नाम से बैंकस चैक बनाकर सात दिवस की अवधि में इस न्यायालय में जमा करावे अन्यथा आप के विरुद्ध बसूली की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

आदेश आज दिनांक 24/02/2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

Date : 24/02/2014 Signature of the authority

Print

Copyright © 2013 All rights reserved.
Best Viewed with 1024 x 768 pixels This website is best viewed in Internet Explorer Version 8 | Mozilla Firefox 3.5 version


6:04 PM

At the bottom of the page, PRINT option also appears. If the authority wants to take a Print of the notice, he can do so with the Print option available.

THE CASE NOW MOVES TO “**PENDING FOR RECOVERY WITH AUTHORITY**”.

पेज के तल में, प्रिंट विकल्प भी दिखाई देता है. यदि प्राधिकरण नोटिस का प्रिंट लेने के लिए चाहते हैं, वह उपलब्ध छापा विकल्प के साथ ऐसा कर सकते हैं.

In order to view the case in “**PENDING FOR RECOVERY WITH AUTHORITY**”, go to the menu link at the left side and click on “**PENDING FOR RECOVERY WITH AUTHORITY**”.



The screenshot shows a web browser window with the URL https://ldms.rajasthan.gov.in/Admin_Module/Registration/ViewReg.aspx. The page header features the Government of Rajasthan logo and the text "Government of Rajasthan Department of Labour". The user is logged in as "Vishnu Kumar Sharma (Joint Labour Commissioner)" on "10/10/2014 4:05:19 PM". The left sidebar contains a menu with the following items: Home, Edit Profile, Change Password, BoCW Cess/Project Details, BOCW Welfare Board, Claim Under Quasi Judicial, Fresh Claim Application, Pending for recovery with Authority (highlighted with a red box), Pending for recovery with recovering court, Show Cause List, Decided Cases, Complaint Application, Industrial Dispute, Inspection Note, Message, Registration / Amendment / Renewal, and Reports. The main content area is titled "Registration" and displays "No Records Found".

On clicking on the link, all the cases which are pending for recovery with the authority appear.

लिंक पर क्लिक करने पर वो सारे मामले जो अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित हैं, उनकी सूची आएगी

LDMS x M Inbox (12,467) - meghav

localhost:81/Admin_Module/Recovery/QuasiAndJudicial/RecoveryDetail.aspx?Action=3

ApplicationID	ActName	Name of applicant	Name of opponent	Due Date
16/2014/269378	The Employee's Compensation Act, 1923	a	a	10-02-2014
22/2014/605784	The Employee's Compensation Act, 1923	ppssss	hgfhgf	12-02-2014
23/2014/128673	The Employee's Compensation Act, 1923	pksss	jghj	12-02-2014
16/2014/147368	The Employee's Compensation Act, 1923	pawank	jhgjg	12-02-2014
16/2014/894627	The Equal Remuneration Act, 1976	group	ddfg	12-02-2014
16/2014/269378	The Employee's Compensation Act, 1923	a	a	13-02-2014
16/2014/763428	The Employee's Compensation Act, 1923	ghfgh	dghdfg	14-02-2014
16/2014/763428	The Employee's Compensation Act, 1923	ghfgh	dghdfg	15-02-2014
MWIE/NF/16/2014/610952	The Minimum Wages Act Ind, 1948	ghfgh	fghfghfgh	19-02-2014
ECA/NF/2014938214	The Employee's Compensation Act, 1923	jgop	jghj	19-02-2014
ECA/NF/2014/937864	The Employee's Compensation Act, 1923	pankaj sharma	jhgjg	19-02-2014
ECA/F/2014/390674	The Employee's Compensation Act, 1923	pks singh	jghjg	19-02-2014
ECA/F/2014/753281	The Employee's Compensation Act, 1923	case accept	ouio	19-02-2014
ECA/NF/2014/357849	The Employee's Compensation Act, 1923	Megha Test	jkj	20-02-2014
POG/E/2014/397648	The Payment of Gratuity Act Emp, 1937	pk chahar	hfgfhgf	26-02-2014
ECA/F/8/14/735160	The Employee's Compensation Act, 1923	hindi	hindi	26-02-2014
ECA/F/2014/439018	The Employee's Compensation Act, 1923	pks	kjkk	03-03-2014

Previous Page : 1 of 1 Next

Copyright © 2013 All rights reserved.
Best Viewed with 1024 x 768 pixels This website is best viewed in Internet Explorer Version 8 | Mozilla Firefox 3.5 version

Cases appearing in Pink are the cases whose recovery due date has either expired, or it is on the current date or the day following the current date.

जिनकी वसूली नियत तिथि समाप्त हो गई है या मौजूदा तारीख के बाद वर्तमान दिनांक या दिन पर है, वे गुलाबी में प्रदर्शित होंगे.

Cases appearing in Yellow are the cases whose recovery due date is 2-5 days from the current date

पीले रंग में दिखने वाले मामले वे हैं जिनकी वसूली नियत तारीख वर्तमान की तारीख से 2-5 दिनों का है

Cases appearing in Green are the cases whose recovery due date is 6-10 days from the current date

हरे रंग में दिखने वाले मामले वे हैं जिनकी वसूली नियत तारीख वर्तमान की तारीख से 6-10 दिनों का है

In order to update the status of a case, click on the Application Number (which is a hyperlink).

एक मामले की स्थिति को अद्यतन करने के लिए, (एक हाइपरलिंक है) आवेदन नंबर पर क्लिक करें.

LDMS x M Inbox (12,467) - meghav x
localhost:81/Admin_Module/Recovery/QuasiAndJudicial/RecoveryDetail.aspx?Action=3

ApplicationID	ActName	Name of applicant	Name of opponent	Due Date
16/2014/269378	The Employee's Compensation Act, 1923	a	a	10-02-2014
22/2014/605784	The Employee's Compensation Act, 1923	ppssss	hgfhgf	12-02-2014
23/2014/128673	The Employee's Compensation Act, 1923	pksss	jghj	12-02-2014
16/2014/147368	The Employee's Compensation Act, 1923	pawank	jhgjg	12-02-2014
16/2014/894627	The Equal Remuneration Act, 1976	group	ddfg	12-02-2014
16/2014/269378	The Employee's Compensation Act, 1923	a	a	13-02-2014
16/2014/763428	The Employee's Compensation Act, 1923	ghfgh	dghdfg	14-02-2014
16/2014/763428	The Employee's Compensation Act, 1923	ghfgh	dghdfg	15-02-2014
MWIE/NF/16/2014/610952	The Minimum Wages Act Ind, 1948	ghfgh	fghfghfgh	19-02-2014
ECA/NF/2014/937864	The Employee's Compensation Act, 1923	pankaj sharma	jhgjg	19-02-2014
ECA/NF/2014/390674	The Employee's Compensation Act, 1923	pks singh	jghjg	19-02-2014
ECA/NF/2014/753281	The Employee's Compensation Act, 1923	case accept	ouio	19-02-2014
ECA/NF/2014/357849	The Employee's Compensation Act, 1923	Megha Test	jkj	20-02-2014
POG/E/2014/397648	The Payment of Gratuity Act Emp, 1937	pk chahar	hgfhgf	26-02-2014
ECA/F/14/735160	The Employee's Compensation Act, 1923	hindi	hindi	26-02-2014
ECA/NF/2014/439018	The Employee's Compensation Act, 1923	pks	kjkk	03-03-2014

Previous Page : 1 of 1 Next

Copyright © 2013 All rights reserved.
Best Viewed with 1024 x 768 pixels This website is best viewed in Internet Explorer Version 8 | Mozilla Firefox 3.5 version

6:28 PM

On clicking on the hyperlink, the form opens up as shown below.

हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर फॉर्म खुल जायेगा

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/EmployeesCompensation.aspx?Actid=8&ApplicationId=93&Action=3`. The page title is "LDMS" and the user is logged in as "Megha Verma" on "2/25/2014 10:49:19 AM". The page features a navigation menu on the left with options like "Registration / Amendment / Renewal", "Inspection Note", "Complaint Application", "Claim Under Quasi Judicial", "Industrial Dispute", "Standing Order Application", "BoCW Cess/Project Details", "Beneficiary Application", "Return Filed Application", and "Reports". The main content area is titled "Quasi and Judicial" and displays the details for "Application ID: ECA/NF/2014938214 under The Employee's Compensation Act, 1923". The form is divided into several sections: "Basic Details" (1. Name of Applicant: jgop), "Address of Applicant" (2. Plot No. / House No. / Name: jhgj, 3. Street / Locality / Mohalla: jghg, 4. Village / Town / City: jgh, 5. District: Jaipur), "Details of Opponent / Employer" (6. Name of Opponent / Employer: jghj), "Address of Opponent / Employer" (7. Plot No. / House No. / Name: jghj, 8. Street / Locality / Mohalla: ghjg, 9. Village / Town / City: ghjhjg, 10. District: Jaipur), "Employee Service Details" (11. Date of injury to the employee applicant: 05/02/2014, 12. Cause of injury to the employee applicant: jgh, 13. Injuries sustained by the Applicant: jghjg, 14. Monthly wage of Applicant: 767.00), "Details of the Claim" (15. Claim Amount: 767.00), and "Attached Documents".

Basic Details	
1. Name of Applicant	jgop

Address of Applicant	
2. Plot No. / House No. / Name	jhgj
3. Street / Locality / Mohalla	jghg
4. Village / Town / City	jgh
5. District	Jaipur

Details of Opponent / Employer	
6. Name of Opponent / Employer	jghj

Address of Opponent / Employer	
7. Plot No. / House No. / Name	jghj
8. Street / Locality / Mohalla	ghjg
9. Village / Town / City	ghjhjg
10. District	Jaipur

Employee Service Details	
11. Date of injury to the employee applicant	05/02/2014
12. Cause of injury to the employee applicant	jgh
13. Injuries sustained by the Applicant	jghjg
14. Monthly wage of Applicant	767.00

Details of the Claim	
15. Claim Amount	767.00

Attached Documents

Inbox (12,488) - meghav LDMS

localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/EmployeesCompensation.aspx?Actid=8&ApplicationId=94&Action=3

13. Injuries sustained by the Applicant 14. Monthly wage of Applicant

Details of the Claim

15. Claim Amount

Attached Documents

16. View Supporting Documents [View Supporting Document](#)

18. Attach another supporting documents [View Another Supporting Document](#)

19. Copy of the claim [View Claim Copy](#)

Action Taken

20. Is the claim amount received? Yes No

Audit Trail

User Name	Action	Detail	Date & Time
Sunil Sharma(LDC/UDC)	Claim has been filled		2014-02-10 22:39:41 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Notice has been issued	Hearing date-27/02/2014	2014-02-10 22:43:17 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Application is Accepted	Accepted date-12/02/2014	2014-02-12 02:01:30 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Application is Accepted	Accepted date-12/02/2014	2014-02-12 02:49:21 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Recovery certificate has been issued		2014-02-12 02:49:37 (0 day)

Copyright © 2013 All rights reserved.
Best Viewed with 1024 x 768 pixels. This website is best viewed in Internet Explorer Version 8 | Mozilla Firefox 3.5 version

In this form, the authority can take two actions:

1. If the claim amount is received then click on YES
2. If the claim amount is not received then click on NO

इस फॉर्म में अधिकारी के पास दो विकल्प है:

1. दावा राशि प्राप्त हो चुका है तो हाँ पर क्लिक करें
2. दावा राशि प्राप्त नहीं हुआ है तो नहीं पर क्लिक करें

On clicking on YES, the below shown screen appears:

हाँ पर क्लिक करने पर, नीचे दिखाया गया स्क्रीन प्रकट होता है:

Inbox (12,488) - meghav@ x LDMS x
 localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/EmployeesCompensation.aspx?Actid=8&ApplicationId=94&Action=3

13. Injuries sustained by the Applicant 14. Monthly wage of Applicant

Details of the Claim

15. Claim Amount

Attached Documents

16. View Supporting Documents [View Supporting Document](#)

18. Attach another supporting documents [View Another Supporting Document](#)

19. Copy of the claim [View Claim Copy](#)

Action Taken

20. Is the claim amount received? Yes No

Please fill in the details of payment made by the employer

i. Payment Mode Cheque DD Challan * ii. Bank Name *

iii. Amount * iv. Cheque No. / DD No. / Challan No. *

Details of payment made to the applicant

i. Payment Mode Cheque DD * ii. Bank Name *

iii. Amount * iv. Cheque No. / DD No. / Challan No. *

Audit Trail

User Name	Action	Detail	Date & Time
Sunil Sharma(LDC/UDC)	Claim has been filled		2014-02-10 22:39:41 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Notice has been issued	Hearing date-27/02/2014	2014-02-10 22:43:17 (0 day)

Authority needs to fill the amount details in the grid marked in red above and then click on SUBMIT.

अधिकारी को वसूली का विवरण डालना है और फिर "Submit" पर क्लिक करना है.

In this scenario, the case closes here and now can be viewed in DECIDED CASES LINK.

इस केस में ये मामला यही बंद हो जायेगा और " DECIDED CASES LINK " में आप इसे देख सकते हैं.

On clicking on NO, the below shown screen appears: "NO" पर क्लिक करने पर नीचे दिखायी गयी स्क्रीन प्रकट होगी.

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/EmployeesCompensation.aspx?Actid=8&ApplicationId=94&Action=3`. The form contains the following fields:

- 13. Injuries sustained by the Applicant:
- 14. Monthly wage of Applicant:
- 15. Claim Amount:
- 16. View Supporting Documents: [View Supporting Document](#)
- 18. Attach another supporting documents: [View Another Supporting Document](#)
- 19. Copy of the claim: [View Claim Copy](#)
- Action Taken**
20. Is the claim amount received? Yes No
- Please mention court details**
21. Name of Court:
- 22. Address of Court:

Buttons:

Audit Trail

User Name	Action	Detail	Date & Time
Sunil Sharma(LDC/UDC)	Claim has been filled		2014-02-10 22:39:41 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Notice has been issued	Hearing date-27/02/2014	2014-02-10 22:43:17 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Application is Accepted	Accepted date-12/02/2014	2014-02-12 02:01:30 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Application is Accepted	Accepted date-12/02/2014	2014-02-12 02:49:21 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Recovery certificate has been issued		2014-02-12 02:49:37 (0 day)

Here the authority needs to fill the court details and click on SUBMIT.

In this scenario, the case moves to PENDING FOR RECOVERY WITH RECOVERING COURT. इस केस में मामला, “PENDING FOR RECOVERY WITH RECOVERING COURT” वाले लिंक में दिखेगा.

Fill in the details of “Name of Court” and “Address of Court” and click on SUBMIT. कोर्ट का नाम और पता दाल कर "SUBMIT" पर क्लिक करें

The screen shown below appears: नीचे दिखायी गयी स्क्रीन प्रस्तुत होगी:

The screenshot shows a web browser window with the URL http://localhost:81/Admin_Module/Recovery/QuasiAndJudicial/RecoveryNoticeToCourt. The page title is "Quasi And Judicial" and the breadcrumb is "Recovery / Recovery Notice To Court".

The main content area is titled "Court Of The Magistrate Authority Under The Employee's Compensation Act, 1923" and "Shram Bhawan". It contains a form with the following fields:

No.	Date
<input type="text" value="ECA/NF/2014/937864"/>	<input type="text" value="25/02/2014"/>

To,
Shram Bhawan
Jaipur

Subject :-

An application under The Employee's Compensation Act, 1923 was presented to this Court By Jaipur,
After hearing, the opposite party jhgjg,jhg,jhg,jhgjg,Jaipur
Was directed to pay RS. 722.00 as in salary and Rs. 656.00 as MUWAWJA thus total amount Rs 1378.00
As the Opposite party has not paid so far the aforesaid amount, therefore it is requested that the same may kindly be recovered as fine imposed by Magistrate.
A copy of the Judgement and Requisition Certificate is also enclosed.
Copy - pankaj sharma
jhjhgjgjh,
Jaipur

The left sidebar contains a menu with the following items: Registration / Amendment / Renewal, Inspection Note, Complaint Application, Claim Under Quasi Judicial, Industrial Dispute, Standing Order Application, BoCW Cess/Project Details, Beneficiary Application, Return Filed Application, and Reports.

Enter the subject of the Recovery Order and click on SUBMIT. "Recovery Order" का विषय लिख कर "Submit" पर क्लिक करें

After clicking on Submit, the notice appears with the filled data and also a PRINT Option appears. सबमिट करें पर क्लिक करने के बाद, नोटिस भरे डेटा के साथ प्रकट होता है और एक प्रिंट विकल्प भी दिखाई देता है.

The case now moves to "PENDING FOR RECOVERY WITH RECOVERING COURT". In order to view the case in "**PENDING FOR RECOVERY WITH RECOVERING COURT**", go to the menu link at the left side and click on "**PENDING FOR RECOVERY WITH RECOVERING COURT**".

http://localhost:81/Admin_Module/Registration/ViewReg.aspx LDMS

सत्यमेव जयते

Home Edit Profile Change Password Megha Verma 2/25/2014 12:47:22 PM LOGOUT

Registration / Amendment / Renewal

Inspection Note

Complaint Application

Claim Under Quasi Judicial

• Fresh Claim Application

• Pending for recovery with Authority

• Pending for recovery with recovering court

• Show Cause List

• Decided Cases

Industrial Dispute

Standing Order Application

BoCW Cess/Project Details

Beneficiary Application

Return Filed Application

Reports

Registration

Application Number	Name of Establishment	Act Name	Date of Application	Application Status
8/2014/869704	Hindi	The Trade Unions Act, 1926	01-01-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
49/2014/389571	Amendment	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	08-01-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
53/2014/579082	hfgh	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	17-01-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
7/2014/306294	testing	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	20-01-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
7/2014/250967	testing	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	20-01-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
9/2014/359062	sgdgd	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	20-01-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
58/2014/095768	asdasd	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	21-01-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
49/2014/183642	pssingh	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	31-01-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
49/2014/678910	h	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	03-02-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
49/2014/793604	y	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	03-02-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
49/2014/947186	hj	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	03-02-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
49/2014/374295	p2p	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	03-02-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
MTW/2014/49/278491	abc	The Motor Transport Workers Act, 1961	15-02-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
BOCW/2014/49/720563	MKPB	The Building and Other Construction Workers (RE&CS) Act, 1996	20-02-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)
BOCW/2014/49/645279	MKP{B	The Building and Other Construction Workers (RE&CS) Act, 1996	20-02-2014	Pending at the level of Joint Labour Commissioner(M V)

DEPARTMENT OF LABOUR
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

Home | Edit Profile | Change Password | Megha Verma | 2/25/2014 1:20:43 PM | LOGOUT

	ApplicationID	ActName	Name of applicant	Name of opponent	Sending Date	Court Name	Court Address
<input type="checkbox"/> Registration / Amendment / Renewal	ECA/NF/2014/368491	The Employee's Compensation Act, 1923	kj hgfnfgh	jkjkjkj	13-02-2014	Jhbhjghg	tjhkhjk
<input type="checkbox"/> Inspection Note	ECA/NF/2014/937864	The Employee's Compensation Act, 1923	pankaj sharma	jhgjg	25-02-2014	Jaipur	Shram Bhawan
<input type="checkbox"/> Complaint Application	ER/NF/16/2014/639520	The Equal Remuneration Act, 1976	group	fgh	19-02-2014	Gandhi nagar court	gfdgdf
<input type="checkbox"/> Claim Under Quasi Judicial							
<input type="checkbox"/> Industrial Dispute							
<input type="checkbox"/> Standing Order Application							
<input type="checkbox"/> BoCW Cess/Project Details							
<input type="checkbox"/> Beneficiary Application							
<input type="checkbox"/> Return Filed Application							
<input type="checkbox"/> Reports							

Previous Page: 1 of 1 Next

On clicking on the menu, all the cases which are in court will appear on the right hand side (as shown in the image above).

To view a particular form, click on the Application ID, which is a hyperlink.

“PENDING FOR RECOVERY WITH RECOVERING COURT” वाले लिंक पर क्लिक करने से वे सारे मामला प्रदर्शित होंगे जो अभी कोर्ट में हैं

LDMS

localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/EqualRemuneration.aspx?Actid=10&ApplicationId=37&Action=5

Delay condo nation application not attached	Download Shortcomings File
Court fees not attached	Download Shortcomings File
Court fees exemption application not attached	Download Shortcomings File
In case of Advocate, Vakalat Nama not attached	Download Shortcomings File

Audit Trail

User Name	Action	Detail	Date & Time
Sunil Sharma(LDC/UDC)	Claim has been filed		2014-02-11 04:32:56 (0 day)
Prashant Bhatt(Administrator)	Shortcomings has been send	Delay condo nation application not attached,Court fees not attached,Court fees exemption application not attached,In case of Advocate, Vakalat Nama not attached	2014-02-11 04:35:13 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Notice has been issued		2014-02-12 21:01:38 (1 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Application is Accepted	Accepted date-13/02/2014	2014-02-12 21:05:36 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Recovery certificate has been issued		2014-02-12 21:05:49 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Application is Accepted	Accepted date-13/02/2014	2014-02-12 21:07:34 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Recovery certificate has been issued		2014-02-12 21:07:56 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Recovery send to court		2014-02-19 04:37:18 (7 days)

21. Is the claim amount received? Yes No

[Back](#) [Submit](#)

Copyright © 2013 All rights reserved.
 Best Viewed with 1024 x 768 pixels. This website is best viewed in Internet Explorer Version 8 | Mozilla Firefox 3.5 version

The entire form along with the audit trail appears with the option to update the status of the case.

वाले लिंक पर क्लिक करने पर पूरा फॉर्म खुल जायेगा और मामले को अद्यतन करने का विकल्प भी आ जायेगा

If claim amount is still pending then a reminder will get generated to the court to get the payment of claim. Here is the column to send a reminder to court for claim payment.

यदि दावे की राशि अभी भी लंबित है तो दावे का भुगतान पाने के लिए चेतावनी अदालत को उत्पन्न हो जाएगी.

Registration	10
Department	2

Address of Opponent/Employer			
7. Plot No./House No./Name	<input type="text" value="plot no-786"/>	8. Street/Locality/Mohalla	<input type="text" value="itmadpur"/>
9. Village/Town/City	<input type="text" value="Agra"/>	10. District	<input type="text" value="Jaipur"/>

Employee Service Details				
11. Period of Service	<input type="text" value="11/8/2013 12:01"/>	<input type="text" value="11/15/2013 12:01"/>	12. Post/Designation	<input type="text" value="Developer"/>
13. Discrimination with the applicant on the basis of gender	<input type="text" value="Yes"/>			

Payment Details			
14. Amount which was to be paid actually	<input type="text" value="1.00"/>	15. Amount paid	<input type="text" value="2.00"/>
16. Difference in amount	<input type="text" value="3.00"/>	17. Period of non-payment	<input type="text" value="11/5/2013 12:01"/> <input type="text" value="11/22/2013 12:01"/>

Attached Documents			
18. Attach supporting documents	Download Document	19. Signature (scan and upload)	Download Signature
20. Attach supporting documents	Download Document		

21. Is the claim amount received?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Send Reminder to court ?	<input type="checkbox"/> Yes

SUBMIT

Copyright © 2013 All rights reserved.
Best Viewed with 1024 x 768 pixels. This website is best viewed in Internet Explorer Version 8 | Mozilla Firefox 3.5 version

When authority selects No for the “Is the claim received?” another option will appear “Send reminder to court”. Select this option if payment is still pending and press submit button. Court order will get opened on the screen. Court case will be continued till payment not deposited to the applicant.

यदि अधिकारी "क्या भुगतान की राशि प्राप्त " हो गई है के विकल्प में "ना" का चुनाव करते हैं, तो "कोर्ट को अनुस्मारक भेजे?" का विकल्प सक्रिय हो जायेगा. यदि भुगतान राशि अब भी लंबित है तो इस विकल्प का चुनाव करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें. कोर्ट का आदेश स्क्रीन पर खोला जाएगा. जब तक भुगतान राशि जमा न हो जाये, तब तक मामला कोर्ट में चालू रहेगा.

On clicking on YES, the below shown screen appears:

The screenshot shows a web browser window with the URL: localhost:81/Admin_Module/QuasiJudicial/Claims/EmployeesCompensation.aspx?Actid=8&ApplicationId=94&Action=3. The page contains the following sections:

- 13. Injuries sustained by the Applicant:** jhg
- 14. Monthly wage of Applicant:** 5656.00
- Details of the Claim:**
 - 15. Claim Amount:** 656.00
- Attached Documents:**
 - 16. View Supporting Documents (View Supporting Document)
 - 18. Attach another supporting documents (View Another Supporting Document)
 - 19. Copy of the claim (View Claim Copy)
- Action Taken:**
 - 20. Is the claim amount received? Yes No
 - Please fill in the details of payment made by the employer:**
 - i. Payment Mode: Cheque DD Challan *
 - ii. Bank Name: *
 - iii. Amount: *
 - iv. Cheque No. / DD No. / Challan No.:
 - Details of payment made to the applicant:**
 - i. Payment Mode: Cheque DD *
 - ii. Bank Name: *
 - iii. Amount: *
 - iv. Cheque No. / DD No. / Challan No.:
- Buttons:** Back, Submit
- Audit Trail:**

User Name	Action	Detail	Date & Time
Sunil Sharma(LDC/UDC)	Claim has been filled		2014-02-10 22:39:41 (0 day)
Megha Verma(Joint Labour Commissioner)	Notice has been issued	Hearing date-27/02/2014	2014-02-10 22:43:17 (0 day)

Authority needs to fill the amount details in the grid marked in red above and then click on SUBMIT.

In this scenario, the case closes here and now can be viewed in DECIDED CASES LINK.

"हाँ" पर क्लिक करने पर, ऊपर प्रदर्शित स्क्रीन दिखायी जायेगी.

इस परिदृश्य में, मामला यहाँ बंद कर देता है और अब फैसला DECIDED CASES में देखा जा सकता है.

यहाँ अधिकारी निम्नलिखित का चयन करेगा

भुगतान विधिचालान किसके द्वारा किया है चयन करे,डीडी, इसमें यूजर ने भुगतान चेक -

बैंक का नाम -बैंक का नाम डाले जिसके द्वारा भुगतान किया गया है

राशि-इसमें यूजर राशि डालेगा जो की यूजर ने भेजी की है

चेक नंबरच / **डीडी नंबर**/ **ालान नंबर** -इसमें यूजर चेक नंबरचालान नंबर / डीडी नंबर/ का चयन करेगा